

17.08.2024

To,
The Manager - Listing
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza,Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai - 400 051
Tel No. 022-2659 8237 /38

The General Manager – DSC BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai: 400001 Tel No.022-22722039/37/3121

Security Code: 500119

Symbol: DHAMPURSUG

Dear Sir,

Subject: Submission of Newspaper Publication

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we enclose herewith copies of Business Standard (English and Hindi Edition) dated 17th August, 2024 wherein the details of Notice of 89th Annual General Meeting of the Company, Intimation of Book Closure and Notice of e-voting of the Company has been mentioned.

The aforesaid information is also available on the website of the Company, viz., www.dhampusugar.com

You are requested to take the information on record.

Thanking you,

For Dhampur Sugar Mills Limited

Aparna Goel Company Secretary M. No. 22787



AI CANDY

Al PCs are here to disrupt the market. How fast can they become truly useful?

ARYAMAN GUPTA New Delhi, 16 August

n June 29, 2007, Steve Jobs unveiled the first iPhone. promising the capabilities of an iPod, mobile phone, and internet functionality rolled into one. But it was only when Apple introduced the App Store, in 2008, that the iPhone started to find widespread appeal.

Seventeen years later, on May 20 this year, Microsoft CEO Satya Nadella introduced the Copilot+ PCs. These are personal computers loaded with artificial intelligence (AI) features.

"It is a pivotal moment, quite similar to the mobile phone industry pivoting from feature phones to smartphones," says Ashish Sikka, Director and Category Head, Lenovo

And just like the pivot from features phones to smartphones, AI PCs of today face a challenge. Since the technology is nascent, use cases are limited.

What is an AI PC?

In late 2023, the term AIPC was coined for computers with next generation processors. An AI PC is one built with nardware specifically a neural processing unit (NPU), that performs AI processing locally. This NPU exists besides the central processing unit (CPU) and graphics processing unit (GPU) that PCs come with.

AI devices enable accelerated execution of AI functions of all types on the local PC itself, rather than relying on the cloud. They offer better power efficiency and improved responsiveness, since the CPU and GPU are available for other tasks.

"Currently, use cases (for AI PCs) include features like hyper personalisation - be it drafting emails, gauging downtime of users, etc. They are able to carry out a lot of tasks on the local PC, without relying on the cloud. A lot of data, thus, remains on the host PC, which improves efficiency. Third is improved security, since a lot of the data remains on the host PC," explains Sikka.

These PCs can be separated into three categories — AI basic laptops, AI-advanced laptops and AI-capable

laptops — based on computational performance. corresponding use cases, and efficiency of computational performance. With original equipment manufacturers (OEMs) launching more AIadvanced and AIcapable models. upcoming PCs will be equipped with enough tera operations per second (TOPS) powered by NPUs to perform advanced generative AI tasks well.

Microsoft's X factor

After the first mainstream corporate

Qualcomm, and Apple have jumped

"The first wave of AI PCs will

gradually come up with three major

CPU platforms: Intel Meteor Lake,

Windows laptops with an NPU

powered by the Intel Core Ultra

processor arrived in the second

quarter of 2024, other chip

into the fray.

manufacturers such as AMD,

accelerated execution of Al functions of all types on the local PC itself, rather than relving on the cloud. They offer better power efficiency and improved responsiveness, since the CPU and GPU are available for other tasks

Al devices enable

INDIA PC MARKET SHARE - Q1 CY2024

Q1 2023

16.0

Source: IDC

Q12024

AMD Hawk Point, and Qualcomm

vendors are also preparing for next

rolling out later this year, which will

accelerate the adoption of AI PCs at

Wang, Associate Director at research

in India on July 11, Microsoft is likely

"fastest, most intelligent" Windows

PCs ever, Microsoft says its Copilot+

 $Qual comm \hbox{'s Snapdragon}\,X\,Elite\,and$

"We see AI PCs as a transformative

Snapdragon Plus processors, offer a

opportunity that can disrupt the PC

devices, they will enable users to do

things they cannot on any other PC,

helping them be more productive,

creative and

Bhatia, Country

ASUS, Dell, HP,

announced

days, Indian PC makers have reported

"beyond expectations" and many of

unveiled its series of Copilot+ laptops

segments last month. It is betting big

them expect AI to drive shipments.

PC market leader HP, for instance,

for commercial and consumer

on its AI PCs to drive growth in

segments like small and medium

businesses, large enterprises, and

HP's new laptops, the EliteBook

Ultra and HP OmniBook X, come with

that demand for AI PCs has been

Copilot+PCs.

and Lenovo have

communicate more

effectively," says Shruti

Manager, Modern Work

and Surface, India and

South Asia, Microsoft.

Indian OEMs bet big

Although it is still early

OEMs such as Acer,

market. With new advanced AI

experiences integrated into the

to lead the charge. Touted as the

laptops, which are powered by

With the launch of the Copilot+ PCs

multiple price points," says Brady

firm Counterpoint.

"quantum leap".

generation solutions for AI laptop PCs

Snapdragon X Elite series. These

17.5

President and Managing Director, HP India, says AI PCs will be a growth ■HP Inc. ■Dell Technologies ■Acer Group driver not just for HP but for India. ■Lenovo ■Asus ■Others across commercial and consumer segments. 17.7 33.8

"In the next year, we will see at least 10 per cent of all PCs sold will be AI PCs across the industry. And over the next two or three years, we expect to see this figure go up to almost 50 per cent," she says. "Overall, we see the total addressable PC market doubling over the next five years, and AI will be a huge driver for that," she added.

Camera Pro, and improved security.

Ipsita Dasgupta, Senior Vice

While HP has a longer-term view, others like Lenovo, which is the fourth largest PC manufacturer in India, is confident that these devices will make significant progress this year.

Lenovo's Sikka believes around $20\,per\,cent\,of\,the\,consumer\,market$ will be an AI PC market by the end of this year. "As we progress, adoption will be much faster." he says.

In anticipation of the demand, Taiwanese manufacturer ASUS, fifth in market share, has doubled its forecasts for AI devices this year.

"The demand has been beyond our expectations," says Arnold Su, Vice President-Consumer and Gaming PC, System Business Group, Asus India. By the end of this year our target is that AI PCs should account for between 5 and 10 per cent of our shipments. And from next year onwards, this will gradually increase."

ASUS launched India's first Copilot+laptop, the ASUS Vivobook S 15 OLED, last month and plans to launch another five to 10 AI PCs in India this year.

Slow burner

India's PC market, inclusive of desktops, notebooks, and workstations, shipped 3.07 million units in the first quarter of 2024, up only 2.6 per cent over January-March 2023, after consecutive quarters of double-digit growth, according to data from the International Data Corporation.

However, with the advent of AI PCs, the "softness" in the market is beginning to subside. OEMs, across the board, expect shipments to buoy.

"From the second half of the year onwards, we expect things to be better driven by AI PCs. Even in H1 (first half), lots of customers have been waiting for AI PCs to come into the market before they make a purchase. So, the market should be better as the refresh cycles kick in,' says Su of Asus.

AI PCs may see quicker adoption on the commercial side. Analysts at Gartner say all enterprise PC purchases will be an AI PC by the end of 2025-26. But the uptake among

individual buyers could be slower. Aside from the relatively limited use cases, the higher price band of AI PCs may prove to be a deterrent.

"This year, the price band (for AI PCs) will be on the higher side. So, AI will be a growth engine but may not be a major top margin contributor," says Su.

Globally, Counterpoint estimates that almost half a billion AI devices will be sold during the period between 2023 and 2027, with these PCs reviving the replacement demand. However, despite the "quantum leaps" of AI computers, analysts say large-scale adoption will take time, with demand picking up from 2025 as more use cases surface.

THE GAEKWAR MILLS LIMITED

CIN NO. L17120MH1949PLC007731

REGD. OFFICE: 2/2 New Sion CHS, Swami Vallabhdas Marg, Road No 24, Sindhi Colony, Sion West, Mumbai 400 022.

Extract of the Statement of Audited Financial Results for the quarter ended 30th June 2024

Sr	Particulars	Quarter Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended
No.		30.06.2024 Unaudited	31.03.2024 Audited	30.06.2023 Unaudited	31.03.202 Audited
1	Total Income from Operations	-	-	-	
2	Net Profit /(Loss) for the period before Tax	(111.04)	(109.66)	(113.74)	(411.76
3	Net Profit /(Loss) for the period after Tax	(111.04)	(109.66)	(113.74)	(411.76
4	Equity Share Capital	200	200	200	200
5	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	
6	Earnings Per Share of Rs 10/- each (after Extraordinary items)				
	(a) Basic	(5.55)	(5.48)	(4.87)	(20.59
	(b) Diluted	(5.55)	(5.48)	(4.87)	(20.59

1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the (Thrie above's an extract of the detailed of intal to (daterity Prilandan Assuls line will the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and the Company's website (gaekwarmills1928@gmail.com)

For and on behalf of board of directors of THE GAEKWAR MILLS LIMITED

Place : Mumbai. Shweta Shah Date: 13th August, 2024 (Wholetime Director & CEO) (DIN: 03287393)

KOVILPATTI LAKSHMI ROLLER FLOUR MILLS LIMITED

CIN:L15314TN1961PLC004674

Registered Office: 75/8, Benares Cape Road, Gangaikondan, Tirunelveli - 627352 Phone No: +91 462 248 6532, Fax No: +91 462 248 6132 Email: ho@klrf.in Website: www.klrf.in

Notice of the 62nd Annual General Meeting, E-voting Information and Book Closure Dear Members

Notice is hereby given that 62nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, 9th September, 2024 at 09:15 AM (IST) through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of AGM dated 22nd May, 2024 in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and its rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") from time to time. Further, in accordance with the MCA / SEBI Circular(s), the Notice of AGM / Annual Report for FY 2023-24 has been sent to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories as on Friday, 9th August, 2024.

The AGM Notice along with the explanatory statement and the Annual Report for the financial year 2023-24 is available and can be downloaded from the Company's website www.klrf.in and the website of Stock Exchange in which the shares of the Company are listed i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of e-voting service provider i.e. Link Intime India Private Limited (www.instavote.linkintime.co.in)

Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only by following procedure as set out in the Notice of the Annual General Meeting

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using remote electronic voting system ("remote e-voting") provided by LIIPL. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the Annual General Meeting ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting / e-voting at AGM is provided in the Notice of the Annual General Meeting.

Sri. M D Selvaraj, Managing Partner of M/s. MDS & Associates LLP, Company Secretaries, Coimbatore as Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and the e-voting process at the meeting in a fair and transparent manner.

Members are requested to carefully read the instructions printed for voting through e-voting on the AGM Notice. Members are also requested to note

1	Date of completion of dispatch of Notice / Annual Report	Friday, August 16, 2024
2	Date and time of commencement of remote e-voting	Friday, September 06, 2024 at 9:00 AM (IST)
3	Date and time of end of remote e-voting. Remote e-voting will not be allowed beyond this date and time.	Sunday, September 08, 2024 at 5:00 PM (IST)
4	Cut-off date of determining the members	Monday,

Those members, who are present in the AGM through VC / OAVM facility and who had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend / participate in the AGM through VC / OVAM but shall not be entitled

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 2nd September, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the Annual General Meeting. The voting rights of Members shall be in proportion to the shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as of the cut-off date, may obtain the login id and password by following the

If members have already registered on to e-Voting system of LIIPL: https://instavote. linkintime.co.in then he/she can use their existing user ID and password for casting

& Share Transfer Agent ("RTA")/Depositories, log in details for e-voting are being sent on the registered email address. Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address with the Company/ Depository can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the AGM by

Members who wish to register their email address may follow the below instructions: a. Members holding shares in Demat form are requested to register / update the details in their Demat account, as per the process advised by

following the procedure as set out in the Notice of the AGM.

Members holding shares in physical form are requested to register / update the details by filling the prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India Private Limited by sending email at coimbatore@linkintime.co.in. Members

In case of any queries relating to remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and InstaVote e-Voting manual available at https://instavote. linkintime.co.in under Help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: +91 22 4918 6000. In case members have any grievances regarding login / e-voting, they may send an email to instameet@linkintime.co.in or contact on: Tel: +91 22 4918 6175.

This public notice is also available in the Company's website viz. www.klrf.in and on the website of the stock exchange where the shares of the Company are listed

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 3rd September, 2024 to Monday, 9th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of Dividend. Dividend for the year 2023-24, if declared at the AGM, will be paid to the members whose name appears on the Register of Members and to Beneficial Owners of shares as per the details furnished by the Depositories, as the case may be, as at the close of the business hours on 2nd September, 2024 (Record

For Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Limited Place : Gangaikondan Date: 16.08.2024 S.Piramuthu

PPS Enviro Power Pvt Ltd (in Liquidation) 7th E-Auction Notice

Notice is hereby given to the public at large for inviting bids for Sale of the Assets Corporate Debtor M/s PPS Enviro Power Private Limited (in Liquidation) CIN No.U4010 TG2002PTC048720 in the following Lot by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal. Hyderabad Bench yide order dated December 24, 2021.

Lot no	Description	Date and Time of auction	Reserve Price	EMD (Refundable)	Bid Incre ment Amount
1 4	Entire Wind Assets (34 wind mill sites with land area app. 69 acres and 33 wind mills of capacity app. 33.125 MW) spread over Nagerkoil, Tenkasi and Theni Districts of Tamilnadu with the Company PPS Enviro Power P Ltd [Including Securities and Financial Assets (excluding the Bank balance)]	Friday IST from 11AM to 1 PM	113. 07 01	Rs. 2.85cr	Rs.20 lakhs

1)The sale will be done by the undersigned through e auction platform https://www.bankeauctions.com (with unlimited extension of 5 minutes each)

2) The sale is on "as is where is ", "as is what is ", "whatever there is" and "without recourse" basis. 3) For detailed terms and conditions of e-auction sale , and particulars of assets offered under the offered lots , refer complete E auction Process Document available of https://www.bankeauctions.com.or.on.website of CD www.ppsenviro.in and can also be obtained to sending an email to the Liquidator at liquidator.ppsenviro@gmail.com Mob.No. 9061640003 4)For E auction details and participation, contact Mr Dharani Krishna, Phone No. 9948182222 Mail: telangana@c1india.com

)The last date and time for submission of Expression of Interest (EOI) by the interested bidders ŚT 8 PM on 31.08.2024

The last date and time for payment of EMD and other forms only by qualified bidders is IST 8 PI

on 10.09.2024

7)Interested bidders are requested to visit the above mentioned websites and submit their bids. 8)On the close of auction, the highest bidder shall be invited to provide balance sale consideration.

within 90 days provided that payments made after 30 days shall attract interest at the rate of 129 p a. The period of 90 days stipulated herein can be extended at the sole discretion of the Stakeholders Consultation Committee. 9) The liquidator has the right to accept or cancel or extend or modify any terms and conditions of the

10)There is a scheme of incentive available for financial consultants etc for bringing successfi

Any addendum / clarifications and modification in the e-auction notice or the process document this e-auction notice will be uploaded in the corporate debtor website (www.ppsenviro.in) and on the E Auction Portal. No public announcement or paper publication by any other mode will be made

Reg. No. IBBI/IPA-002/IP-N00922/2019-2020/12980

E-mail: liquidator.ppsenviro@gmail.com Mobile No.906164000



Date: 17-08-2024

Place: Hyderabad

DHAMPUR SUGAR MILLS LIMITED

Regd. Office: Dhampur, Distt. Bijnor-246761, U.P Corp. Office: 6th Floor, Max House, Okhla Phase-III, New Delhi-110020 CIN- L15249UP1933PLC000511, Ph: 011- 41259400 Email Id: investordesk@dhampursugar.com Website: www.dhampursugar.com

NOTICE OF 89TH ANNUAL GENERAL MEETING E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 89th Annual General Meeting ("AGM") of th Members of Dhampur Sugar Mills Limited ("the Company") will be held through Video Conference ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Thursday, 12th September, 2024, at 03.00 P.M. (IST). The venue of the AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company i.e., Dhampur, District Bijnor-246761(U.P.). The AGM will be convened in compliance with the applicable provisions of th Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules thereunder; provisions of Securitie Exchange Board of India (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended ("Listing Regulations") read with General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020, 10 2022 dated 28th December, 2022 latest being 09/2023 dated September 25, 2023 ssued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD oD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 and Circular No.: SEBI/HO/CFD/CFD

PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023 issued by the Securities and Exchang

Board of India (SEBI). In compliance with the abovementioned provisions and circulars, the Notice of AGM and Annual Report including the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2024 have been e-mailed to all the Members whose e-mail IDs are registered with the Company or M/s. Alankit Assignments Limited ("RTA") and Depositor Participant(s) ("DPs"). The electronic dispatch of Notice of AGM and Annual Repo raticipant(s) (Drs.). The electronic obspact of whole of Adward Annual Report to Members has been completed on 16th August, 2024. The Notice of the AGM and Annual Report are also available on the website of the Company i.e., www.dhampursugar.com, website of Stock Exchanges i.e., at BSE Limited (www.beindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of NSDL (www.evoting.nsdl.com). The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM shall be available for inspection upon login at NSDL e-voting system at https://www.evoting.nsdl.com. The requiremen of sending physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financia Year 2023-24 has been dispensed with pursuant to the aforesaid MCA/ SEBI Circulars Instructions for Remote E-voting and E-voting during the AGM:

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of th Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 o SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard - 2, the Company is pleased to provide the facility to Members to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be passed at AGM. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on **Thursday, 5th September, 2024** (cut-off date), shall cast their vote electronically through electronic voting system (remote e-voting) of NSDL a https://www.evoting.nsdl.com. A person whose name is recorded in the Registe of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. All the Members are hereby informed that the Ordinary and Special Business, as set out in Notice of 89th AGM will be transacted through voting by electron

The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid up equity share capital of the Company as on Thursday, 5th September, 202

The remote e-voting period will commence on Monday, 9th September, 2024 a 09:00 A.M. and ends on Wednesday, 11th September, 2024 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled for voting at 05:00 pm on Wednesday 11th September, 2024. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member cannot modify it subsequently.

The remote e-voting module will be disabled by NSDL thereafter and Member will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time

Members who have acquired shares after sending the Annual Report throug electronic means and before the cut-off date are requested to refer to the Notice of AGM for the process to be adopted for obtaining the USER ID and Password for Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting sha

be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM, however, they shall not be eligible to vote at the meeting. The procedure of electronic voting is available in the Notice of the AGM as we

as in the email sent to the Members by NSDL. In case of any queries/grievances you may refer to the 'Frequently Asked Questions' (FAQs) for Members and 'e-voting user manual' for Members available in the downloads section of the e-voting website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com/. Members who need assistance before or during the AGM with use of technology, can

can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at toll free no.: 022-48867000 in case of holding with NSDL and call at toll free no.: 1800-21-09911 in case of holding with CDSL. Or

Contact Ms. Sarita Mote. Assistant Manager, NSDL, at designated e-mai IDs: evoting@nsdl.com. The Notice of AGM is available on the Company's website i.e

www.dhamnursugar.com.on.the.website.of.Stock.Exchanges.i.e. at BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of NSDL (www.evoting.nsdl.com). . Saket Sharma (FCS: 4229), Partner, M/s GSK & Associates, Company Secretaries

has been appointed as the Scrutinizer to Scrutinize the e-voting process before and during the AGM in a fair and transparent manner.

Manner of registering/ updating email addresses: Members holding shares in physical mode and who have not updated their emai

addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to Alankit Assignments Limited, RTA of the Company at rta@alankit.com or to the Company at investordesk@dhampursugar.com, along with the copy of the signed request letter mentioning the name, folio no., address of the member, Form ISR 1 (available on the website of the Company), self-attested copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any document (such as Driving License, Election Identity Card, Passport, etc.) as proof of address of the Member. Please also send your bani detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e., Alankit Assignments Limited Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055 along with lette nentioning folio no., if not registered already).

Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email addresses with the relevant Depository Participants. Please also update your bank detail with your DP for future benefits directly in bank accounts, if not registered already. Members are requested to update their email addresses by 4th Septembe 2024. After successful registration of the email address, the Members of the Compan as on the cut-off date i.e., 5th September, 2024, would receive a soft copy of the AGM Notice along with the Annual Report and e-voting instructions. In case of any queries Members are requested to write to the RTA at rta@alankit.com or to the Company a investordesk@dhampursugar.com. This Notice is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company in compliance with the applicable Circulars of MCA and SEBI.

Manner of joining the AGM:

Members may access by following the steps mentioned in Notice of AGM under Acces to NSDL e-Voting system. After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under "Join General meeting" menu against Company name. Click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be variable in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the note e-voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.

Book Closure

Notice is hereby given that pursuant to the Regulation 42 of the Listing Regulations and Section 91 of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, we wish to inform you that the Register of Members and Share Transfer Books of the Compan shall remain closed from Friday, 6th September 2024 to Thursday, 12th Septembe 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

By order of the Board For Dhampur Sugar Mills Limited

Aparna Goe Place: New Delhi Company Secretary & Compliance Office Membership No.: A22787











education.

a built-in HP AI Companion, a

personal AI-assistant, a new Poly













Board of Directors of the Company has appointed

the following:

September 02, 2024 eligible for e-voting

instructions given in the AGM Notice.

In case the shareholder's email ID is already registered with the Company/its Registrar

their concerned Depository Participant.

may download the prescribed forms from the company's website viz. www.klrf.in

By order of the Board

Company Secretary Membership No. FCS 9142

Mohol Municipal Council

E-Tender Publication Notice

Out No/MCMO/2024/500 Date-16.08.2024 Chief Officer, Mohol Municipal Council is inviting E-tender for the development work undertaken under Maharashtra Suvarna Jayanti Nagrotthan Mahabhiyan (State Level) Scheme. Mohol Municipal Councilis inviting competitive tender in Technical **B-1** form from registered experienced contractor/qualified tender holder of Govt through e-tender There are total 01 work in the said e-tender notice. Tender Forms Available Online from Date-17/08/2024 To Date-08/09/2024 05 00PM hrs. Th information about the cost of work as well as tender price, acceptance of tender, terms and conditions etc. is available on the website http://mahatenders.gov.in

> (Dr. Yogesh Doke) Chief Officer Mohol Municipal, Mohol

HDFC BANK

एडीएफसी बैंक लिमिटेड, 2 तल, आरपीजी गैलेरिया, डिवाइडर रोड, गंगा नगर, मेरठ पिन —250001 उ.प्र.

कब्जा सूचना परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हिंत प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दिनांक 27 मार्च 2024 को एक मांग सचना जारी कर कर्जदार (रों) 1 अम्बा शगर एजेंसी अपने मालिक श्रीमती मीनू खन्ना के माध्यम से २. श्रीमती मीनू खन्ना पत्नी स्व. श्री मनू खन्ना ३ **श्रीमती रनेह खन्ना 4. श्री आयुष मनू खन्नामारफत श्रीमती मीनू खन्ना** को सूचना में उल्लेखित राशि रुपये 54,26,187/— (रुपये चौवन लाख छब्बीस हजार एक सौ सत्तासी मात्र) उत्त सूचना प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आहवान किया है।

कर्जदार(ओं) राशि चुकाने में विफल रहे हैं, एतद् द्वारा कर्जदार(रो) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमों, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नींचे वर्णित संपत्ति पर इस अगस्त के 13 वें दिन वर्ष 2024 को कब्जा प्राप्त कर लिया है र्जदार(रो) को विशेष रूप से और आम तौर पर जनता को आगाह किया जाता है कि वह नीचे उल्लेखित संपत्ति से कोई लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार राशि **रुपये** 54,26,187/**– (रुपये चौवन लाख छब्बीस हजार एक सौ सत्तासी मात्र)** और उस पर ब्याज संग व्ययों औप प्रभारों आदि के साथ, भुगतान घटाकर, यदि कोई हो।

अचल संपत्ति का विवरण

क्षेत्र 107 वर्ग मीटर, खसरा सं. 738/2, मोहल्ला सुभाष नगर, ग्राम सरवत, परगना और तहसील मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश भारत पिन – 25 100 1और संपत्ति स्वामित्व द्वारा मीनू खन्ना और स्नेह पाधिकत अधिकारी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

दिनांक: 13.08.24, स्थान: मेरठ

मेसर्स एशकॉन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड इब्ल्यूजेड-509ए/2, केएच नं.:177, पालम विलेज, अर्वन कॉलोनी, मटियाला वार्ड नजफगढ़ जोन, साऊथ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110045 प्रपत्र सं. आईएनसी-26

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्रीय पीठ, दिल्ली के समक्ष कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का केंद्र शासित राज्य दिल्ली से केरल राज्य में स्थानांतरण के लिए विज्ञापन कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कंपनी (गठन)

नियमों, 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामले में सूचना

एतदद्वारा सर्व साधारण को सचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को केंद्र शासित राज्य दिल्ली से केरल राज्य में स्थानांतरित करने हेतु कंपनी को सक्षम बनाने के लिए दिनांक 13/08/2024 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के मद्देनजर कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव के पुष्टीकरण की मांग हेतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के साथ प्रतित ऊपर उल्लेखित नियमों के अधीन केंद्रीय सरकार के समक्ष आवेदन दायर करने जा रही है।

कोई भी व्यक्ति जिनका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित बदलाव से प्रभावित हो सकता है, ऐसे व्यक्ति अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के अंदर आपत्ति के कारणों का उल्लेख कर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्रीय पीठ, बी-2 विंग, दुसरी मंजिल, पंडित दीन दयाल अंत्योदय भवन, दुसरी मंजिल, सीजीओ कॉमप्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के समक्ष दर्ज कर सकते हैं साथ में हित की प्रकृति एवं विरोध के कारण, यदि कोई है, का उल्लेख करें एवं उसे हलफनामा द्वारा समर्थित कर भेजें तथा उसकी एक प्रति आवेदक कंपनी के पास नीचे उल्लेखित पते स्थित उनके पंजीकत कार्यालय में भी भेजें:

एशकॉन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए तथा उनकी ओर से मारूफ पथिया पंथाकलाकम

डीआईएनः 01881140

पंजीकृत कार्यालय का पताः डब्ल्युजेड-509ए/2 केएच नं.-177 पालम विलेज अर्बन कॉलोनी मटियाला वार्ड नजफगढ जोन. पर्वी उत्तर साऊथ वेस्ट दिल्ली दिल्ली भारत 110045 दिनांक: 13.08.2024

स्थानः दिल्ली

इनसिल्को लिमिटेड (दिनांक 25-06-2021 के प्रभाव के तहत स्वैच्छिक परिसमापन) सीआईएन : L34102UP1988PLC010141

प्रावधानों के अनपालन से कछ छट प्रदान की गई है।

राजाडुर : पंजी. कार्यालय बी–23, सैक्टर–63, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301 फोन : 09837923893, ईमेल आईडी : insiloo2@gmail.com, वेबसाइट : www.insilcoindia.com

36वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की सूचना,

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है किः

कम्पनी की 36वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बुधवार, 11 सितम्बर, 2024 को दोपहर 02:00 बर्ज (मारतीय समयानुसार) वीडियो कॉन्फ्रेनिसंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') की सुविद्या के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और तदधीन विरचित नियमों तथा भीबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेकाए) विनियमावली, 2015 के सह पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वार जारी 36वीं एजीएम के नोटिस में दिये व्यावसायिक लेनदेन के लिए दिनांक 8 अप्रैल, 2020 के जनरह परिपन्न नंबर 14 / 2020. दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के जनरल परिपन्न नंबर 17 / 2020. और इस संबंध में आपों जारी किए गये अन्य परिपन्न के साथ, जिसमें दिनांक 25 सितम्बर 2023 को जारी नवीनतम सामान परिपन्न 09/2023, जिसे कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए सर्कुलर्स') द्वारा जारी किया गया थ जिसके द्वारा 30 सितंबर 2024 तक एक सामान्य स्थल पर शैयरधारकों की भीतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से एजीएम के आयोजन की अनुमति दी गई है। भारतीय प्रतिमृति और विनिमय बोर्ड ('संबी') ने अपने परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020 के अनुसरण र जिसकी वैद्याता सेबी दारा अपने परिपन्न संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी? सीआईआर, पी./ 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के माध्यम से विधियत. विस्तारित की गई है) और परिपन्न संख्या सेबी./ एचओ./ सीएफडी./ सीएमडी2/ सीआईआर/पी./ 2022./ 62 दिनांक 13 मई. 2022. सेवी / एचओ / सीआरडी / पीओडी-2 / पी / सीआर्डआर / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी 2023 और तथा/ एथजा/ ताजारज/ पाजाजान्य र पार्त्राच्छा २००८) ने परापार्थ ज जेपरप्, २०२३ जार नवीनतम परिपन्न संस्था सेबी/एचजो/सीएफडी/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-ट्रर्पी/सीआईआर/ २००३/167 दिनांक ०७ अक्टूबर, २०२३ (सेबी परिपन्न) के माध्यम से भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोस्ट (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के कुछ

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों, सूचीयन विनियमों के सहपठित एमसीए और सेबी द्वारा जारी परिपत्नों के अनुसार, कंपनी की 36वीं एजीएम वीडियो कॉन्फ्रॉसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो—विजअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसके लिए सदस्यों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। 36वीं एजीएम के आयोजन के लिए स्थल कंपन का पंजीकत कार्यालय माना जाएगा। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के सहपठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014

- विनियमन २०. सेबी (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, २०१५ के विनियम ४४ तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठक (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों व अनुसरण में कंपनी अपने सभी सदस्यों को इलेक्टॉनिक वोटिंग प्रणाली ("रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली") द्वारा एजीएम बुलाने के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डाल की सविधा प्रदान कर रही है।
- एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार, 36वीं एजीएम का नोटिस और वित्तीय वर्ष 2023—24 व लिए वार्षिक रिपोर्ट जिसमें 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रतिभागी(यों) के पास पंजीकत किए गये हैं। सदस्यों को 36वीं एजीएम की सचना और वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 16 अगस्त 2024 को पूरा हो गया है।
- भौतिक या डीमैट रूप में शेयरधारक सदस्य, कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 4 सितंबर 2024 को नेशनव सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ('एजीएम में रिमोट ई—वोटिंग या एजीएम में ई—वोटिंग सिस्टम') के माध्यम से 36वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी
- प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 6 सितंबर 2024 को प्रातः 09:00 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू हो जाएगी।
- रिमोट ई—वोटिंग मंगलवार, 10 सितंबर 2024 को सांयः 05:00 बजे (भारतीय समयानुसार) समा
- iii. रिमोट ई-वोटिंग का मॉड्यूल 10 सितंबर 2024 को सांयः 05:00 बजे (भारतीय समयानुसार) के बाव अक्षम कर दिया जाएगा।
- कोई भी व्यक्ति, जो ईमेल द्वारा 36वीं एजीएम के नोटिस भेजने और कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार सितंबर 2024 को कंपनी का शेयरधारक सदस्य बन जाता है वह कंपनी के ईमेल पर insilco2@gmail.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँदि यदि आप रिमोट ई- वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकत हैं तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपन पासवर्ड भल गए हैं. तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "उपयोगकर्ता विवरण / पासवर्ड न्तराबंध के प्रति हैं, ता जान **अफ्रान्ट एवं हैं**। मूल गए हैं या 'मीतिक उपयोगकर्ता रिसेट पासवर्ड' किल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रिसेट क सकते हैं या 022-4886 7000 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डीमैट मोड में प्रतिभूति धारक व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में जिन्होंने कंपनी के शेयर प्राप्त किए हैं और नोटिस भेजने के बाद कंपनी के सदस्य बन जाते हैं और कट—ऑफ तारीख यानी 4 सितंबर 2024 तक शेयरधारक बन गए हैं, वे एजीएम नोटिस में "एनएसडीएल ई- वोटिंग सिस्टम तक पहुंच" के तहत उल्लिखित चरणों का अनुसरण क

सदस्यगण ध्यान दें कि: (क) वोटिंग के लिए उपरोक्त तिथि और समय के बाद एनएसडीएल दारा रिमोर ई—वोटिंग मॉड्यूल अक्षम कर दिया जाएगा (ख) 36वीं एजीएम के दौरान ई—वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध की जाएगी. तथा 36वीं एजीएम में वीसी /ओएवीएम संविधा के माध्यम से उपस्थित वे सदस्य जिन्होंने प्रस्तावों पर रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है तथा अन्यथा ऐसा करने र प्रतिबंधित नहीं किए गये हैं. 36वीं एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के हकदार होंगे (ग) वे सदस्य, जिन्होंने 36वीं एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वीसी / ओएवीएम सविधा के माध्यम से 36वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं. लेकिन 36वीं एजीएम के वाता / जारवार ने प्राच्या के नाव्यम से उठवा रजारन ने नान के कहान के किन्ना नहीं होंगे, और (घ) वह वर्षणन ई-नीटिंग प्रणाली के माध्यम से डुवारा अपना वांट डालने के किन्नार नहीं होंगे, और (घ) वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा निर्मित लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि तक दर्ज है, वह रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने, वीसी/ओएवीए सुविधा के माध्यम से 36वीं एजीएम में भाग लेने और 36वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग करने हकदार होंगे।

डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर धारक सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल फ पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए रिमोट वोटिंगे का तरीका 36वीं एजीएम के नोटिस में दिया गया है vii 36वीं एजीएम का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.insilcoindia.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है। 36वीं एजीएम का नोटिर

एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है; तथा viii. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) औ शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुमाग में देख सकते हैं या 022-4886 7000 नंबर पर कॉल कर सकते हैं या एनएसडीएल की वरिष्ट प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हात्रे को evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिव ु । मतदान से जुड़ी शिकायतों का समाधान भी करेंगी। सदस्य कंपनी सचिव को कंपनी के ईमेल पते insilco2@gmail.com पर भी लिख सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफ खाते 5 सितंबर 2024 से 11 सितंबर 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित हैं) 7 दिनों की अवधि के लिए बंद कते इनसिल्को लिमिटेड

दिनांकः 16 अगस्त 2024

स्थानः पलवल, हरियाण

(25-06-2021 की प्रभावी तिथि से स्वैच्छिक परिसमापनाधीन हस्ता /



फोन : 011-41732000 वेबसाईट : www.ifciltd.com

आईएफसीआई लिमिटेड पोर्टल विकास, प्रबंधन और प्रबंधन में सक्षम (प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर एजेंसियों / विक्रेताओं) से पैनल में शामिल होने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है। यह पैनल आईएफसीआई द्वारा संचालित भारत सरकार की योजनाओं के लिए पोर्टल बनाने के लिए है।

पैनल में शामिल होने के लिए अनुरोध (आरएफई)

इच्छुक पार्टियां अधिक जानकारी के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद निविदाएं टैब के तहत www.ifciltd.com पर जा सकते हैं।

अंतिम तिथि–31 / 08 / 2024 विभाग प्रमुख स्थान : नई दिल्ली (सूचना प्रौद्यौगिकी) दिनाक : 16 अगस्त, 2024

Extract for Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Statement of Acme Resources Limited for Quarter ended 30th June 2026 Registered office: 984, 9th Floor, Aggarwal Cyber Plaza - II, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110034 [Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

		STANDALONE QUARTER ENDED Year Ended			
SI.	Particulars			Year Ended	
No.		30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited) (Refer Note 2)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1 2	Total Revenue from Operations Net Profit for the period (before Tax,	95.79	144.32	144.78	693.71
3	Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit for the period before tax (after	58.51	(217.10)	128.41	16.81
4	Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit for the period after tax (after	58.51	(217.10)	128.41	16.81
5	Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period	43.42	(160.55)	94.97	(12.89)
	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	13 13	(160.55)	94.97	(12.89)
6	Equity Share Capital		2,574.40	2.574.40	2.574.40
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the	_,			_,
	previous year	-	-	-	4,318.13
8 9	Net Worth Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations) -				6,892.53
	Basic:	0.17	(0.62)	0.37	(0.05)
L	Diluted:	0.17	(0.62)	0.37	(0.05)
\vdash			CONSOL	IDATED	
SI.	Particulars	QUARTER ENDED Year Ended			
Na	r ai cicaiai 3	ų Qu	ANTENER	IDED	rear Ended

	Diluted:	0.17	(0.62)	0.37	(0.05)
		CONSOLIDATED			
SI. No.	Particulars	QU	Year Ended		
NO.		30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited) (Refer Note 2)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total Revenue from Operations	166.95	184.18	216.78	990.37
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional				
3	and/or Extraordinary items)	121.33	(196.82)	196.43	263.59
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	121 22	(196.82)	196.43	263.59
4	Net Profit for the period after tax (after	121.33	(190.02)	190.43	203.33
	Exceptional and/or Extraordinary items)	89.63	(144.08)	145.88	171.03
5	Total Comprehensive Income for the period		,,		
	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after				
	tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]		(144.08)	145.88	171.03
5	Equity Share Capital	2,574.40	2,574.40	2,574.40	2,574.40
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as				
	shown in the Audited Balance Sheet of the				
	previous year	-	-	-	10,154.06
8	Net Worth				12,728.46
9	Earnings Per Share (for continuing and				
	discontinued operations) -				
	Basic:	0.35	(0.56)	0.57	0.66
	Diluted:	0.35	(0.56)	0.57	0.66

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 14th August, 2024. The above results pertain to Acme Resources Limited on Standalone and Consolidation basis.
- The figures for the quarter ended March 31, 2024 are the balancing figures betwee audited figures in respect of the full financial year ended March 31, 2024 and the published year to date figures up to December 31, 2023 which was subject to limit Inventory, having book value of Rs. 543.92 lakh has been provisionally attached by Inc
- Tax Department under section 132(9B) of the Income Tax Act 1961. Accordingly the Company is prohibited from transferring, creating any charge on or parting with possession (by way of sale, mortgage, gift exchange or any other mode of transfer whatsoever) of the properties in favour of any other person.
- The above is an extract of the detailed format of financial results for quarter ended on 30th June 2024 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, as amended. The full format of Standalone and Consolidated financial results for the quarter ended June 30,2024 are available on BSE (www.bseindia.com), CSE (www.cse-india.com) and the website of the

For and on behalf of the Board

Director

Date: 14th August, 2024

श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

SHRIR 🔊 🖍 चेन्नई-600 001, शाखा कार्यालय : प्लॉट नं. 245 एवं 246, दूसरा तल HOUSING FINANCE ओमकारम टॉवर, हनुमान नगर-डी, अमरपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान-302021 वेबसाइट : https://www.shriramhousing.in

सांकेतिक कब्जा सूचना

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) के प्रावधानों के तहत श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसएचएफएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (कथित नियम) के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे तालिका वर्णित कर्जदारों को कथित माँग सचनाओं में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए माँग सूचनाएँ जारी की थीं।

कर्जदारों के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि एसएचएफएल का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम तथा नियम की धारा 13(4) के तहत नीचे वर्णित बन्धक सम्पत्ति पर 13 अगस्त. 2024 को सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

कर्जदार का नाम एवं पता

ऋण खाता संख्या:- SHLHJIPR0001382 श्री ऋषभ गुप्ता पुत्र श्री राम प्रकाश गुप्ता (कर्जदार)

फ्लैट नंबर-जी-1, ए-3, अपोलो हाइट्स सुभाषनगर, शास्त्री नगर, जयपुर राजस्थान -302016

इसके अलावा: फ्लैट नंबर जी-1204,12वीं मंजिल, जी टावर में, आशादीप, वेदांता मरलीपरा. सांगनेर. जयपर. राजस्थान 302029

श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी श्री राम प्रकाश गुप्ता (सह-कर्जदार)

फ्लैट नंबर-जी-1, ए-3, अपोलो हाइट्स सुभाषनगर, शास्त्री नगर, जयपुर

राजस्थान -302016 इसके अलावाः फ्लैट नंबर जी-1204, 12वीं मंजिल, जी टावर में, आशादीप,

वेदांता, मुरलीपुरा, सांगनेर, जयपुर, राजस्थान 302029 श्री राम प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री रघु नंदन प्रसाद चौधरी (सह-कर्जदार)

फ्लैट नंबर-जी-1, ए-3, अपोलो हाईट्स सुभाष नगर, शास्त्री नगर, जयपुर राजस्थान -302016

इसके अलावा: फ्लैट नंबर जी-1204, 12वीं मंजिल, जी टॉवर, आशादीप, वेदांता मुरलीपुरा, सांगनेर, जयपुर, राजस्थान 302029

मेसर्स तानी क्रिएशन (साझेदारी फार्म), (सह-कर्जदार) प्लॉट नंबर एस-5 (ए), प्रथम तल, करतारपुरा रोड,

बैस गोदाम इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर-302006 सांकेतिक कब्जा-13 -अगस्त-2024

मांग सूचना के अनुसार देय राशि मांग सूचना दिनांक: 16-03-2024

ऋण खाता संख्या SHLHJIPR0001382 के संदर्भ में 07 मार्च 24 को रु. 3773560/- (रुपये सैंतीस लाख तिहत्तर हजार पांच सौ साठ मात्र) तथा अब तक उल्लिखित ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत आदि शामिल हैं।

बंधक सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नंबर जी-1204, ग्रुप हाउसिंग के बारहवें पर स्थित. खसरा नंबर 19. 19/430,20/1,21/375 और 74 का प्लॉट, और खसरा नंबर 18, 75,76 और 77 का ग्रुप हाउसिंग प्लॉट नंबर आर-1, मुरलीपुरा, सांगनेर, जयपुर आशादीप, वेदांता, राजस्थान, माप 1535 वर्ग फीट।

एतद्वारा यह सुचना व्यापक रूप से जनसामान्य को चेतावनी भी है कि एसएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी उपर्युक्त अचल सम्पत्तियों के विधिक भौतिक कब्जेदार हैं और कर्जदार अथवा कोई भी व्यक्ति इस सचना में सन्दर्भित उपर्यक्त प्रतिभत आस्तियों में किसी भी अंश को बिक्री, पट्टे अथवा अन्य संव्यवहार/हस्तान्तरण द्वारा इस सूचना की प्राप्ति के पश्चात एसएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं करेगा।

ह./-अधिकृत प्राधिकारी स्थान : जयपर तिथि : 13.08.2024 श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ई-नीलामी आगे बढ़ाए जाने की सूचना एफई (इण्डिया) लिमिटेड (परिसमा<u>पन में)</u>

CIN: L74899DL1994PLC061447 इस समाचार पत्र में दिनांक 01.08.2024 को प्रकाशित रु. 55,00,000/- के आरक्षित मूल्य पर एफ (इण्डिया) लिमिटेड की वित्तीय सम्पत्तियां सम्मिलित, जो सहज रूप से वसूली योग्य नहीं है, के संबंध ई-नीजामी बिक्री सूचना के संदर्भ में, मैं, नीलेश शर्मा, परिसमापक एतदहारा सूचित करता हूँ कि बोली दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख 01.09.2024 को शाम 6.00 तक आगे बढ़ा दी गई है, ईएमडी जमा करने की अंतिम तारीख संशोधित कर दिनांक 14.09 2024 कर दी गई है तथा तदुपरांत ई-नीतामी दिनांक 29.08.2024 के स्थान पर दिनांक 18.09.2024 को सुबह 10.30 बजे से अपराहन 4.30 बजे तक (प्रक्रिया दस्तावेज की शर्तों में विस्तार नहीं किए जाने पर) आयोजित की जाएगी। समय-सीमा प्रक्रिया में परिणामी बदलाव के अलाव ई-नीलामी के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिक्री https://www.

सम्मत्तियाँ का विवरणः विविध देनदार, ऋण एवं अग्रिम (सम्मति), अन्य अग्रिम रकम, सरकारी प्राधिकारियों वे पास शेष जमा रकम युक्त सहज रूप से वसूली योग्य नहीं सम्मतियों के रूप में वित्तीय सम्पत्तियों की विक्री (परिहार आवेदन के अनुसार प्राप्य रहित, जिसका एफई (एडिया) लि. के खाते की बहियों में लेखा नहीं हैं ई-नीलामी एजेंसी (लिंकस्टार इंफोसिस प्रा.लि.) की ओर से सम्पर्क व्यक्तिः श्री दीक्षित प्रजापति, ईमेल आईडी

दूरभाष नं. 011-42440071-74, मोबाइल नं. +91 9654918220

(नीलेश शर्मा), परिसमा

ईमेल आईडीः nilesh.sharma@rrrinsolvency.com, तारीखः 17.08.2024 feindialiquidation@gmail.com स्थानः नई दिल्ली सम्पर्क नं.: +91-9811418701, +91 9654918220

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड टाटा पावर एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम

रणि, आफिस : एनडीपीएल हाउस, हडसन् लाइन, किरमेरी केम, दिल्ली–110009 फोन : 66112222, फैक्स : 27468042, इमेल : TPDDL@tatapower-ddl.com CIN No. : U40109DL2001PLC111526, वेबसाइंट : www.tatapower-ddl.com

टाटा पावर–डीडीएल निम्न मदों ं के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है: ्रबोली जुमा कुराने की बोली निविदा पूछताछ सं. अंतिम तारीख और समय, निविदा खोलने लागत /धरोहर दस्तावेज जमा राशि (रु) की बिकी की तारीख और समय TPDDL/ENGG/ENQ/200001702/24-25 2.31 Crs/ 09 09 2024:1400 Hrs. 17.08.2024 RC for Supply of 9mtr LT PSC 2,90,000 Square Poles at TPDDL Site/Store TPDDI /FNGG/FNQ/200001704/24-25 19.08.2024 09.09.2024;1600 Hrs/ 09.09.2024;1630 Hrs 2.93 Crs/ AMC of OFC and OPGW 2.33.000

शुद्धिपत्र/निविदा तिथि विस्तार						
निविदा पूछताछ सं . कार्य का विवरण	पूर्व प्रकाशित दिनांक	संशोधित निविदा तिथि/बोली जमा कराने की तिथि/बोली खोलने की तिथि				
TPDDL/ENGG/ENQ/200001682/24-25 Purchase of Power Server	21.06.2024	20.08.2024 at 1600 Hrs/ 20.08.2024 at 1630 Hrs				
TPDDL/ENGG/ENQ/200001697/24-25 Supply of Dry Type Transformer & Packaged Substation	12.07.2024	30.08.2024 at 1630 Hrs/ 30.08.2024 at 1700 Hrs				

सम्पर्ण निविदा एवं शद्धिपत्र दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध

ebsite www.tatapower-ddl.com→Vendor Zone → Tender / Corrigendum Document

इंडियन ओवरसीज बेंक आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा - एससीओ 3025-26, सेक्टर 22-डी, चंडीगढ़-160022, ई-मेल : iob2575@iob.in

अधोहस्ताक्षरी ने, **इंडियन ओवरसीज बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्ती आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित[ँ]प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहर त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक **मांग सूचना दिनांकित 30-04-2024 जारी की थी, जिसमे** कर्जदारों / बंधकदाताओं / गारंटरों — (1) भैसर्स शंकर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, ए-अबी यूपीएसआईडीसी, कोटवान इंडस्ट्रियल एरिया, कोसी कलां, जिला मधुरा (उत्तर प्रदेश) (2) श्री प्रशांत (निदेशक / गारंटर), मकान नंबर 794, सेक्टर-28, फरीदाबाद, हरियाणा (3) श्री कुशल मोहन अरोड़ा (निदेशक / गारंटर), मकान नंबर 201, सेक्टर—16ए, फरीदाबाद, हरियाणा, दूसर पता :- श्री कुशल मोहन अरोड़ा, मकान नंबर 551, चतुर्थ तल, सेक्टर 21—सी, फरीदाबाद, हरियाणा, (4) श्रीमती बीणा अरोड़ा (निदेशक / गारंटर), मकान नंबर 201, सेक्टर —16ए, फरीदाबाद, हरियाणा,

वसूली की तिथि तक संविदात्मक दरों एवं अंतरालों पर ब्याज, प्रभार इत्यादि का भुगतान, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। (i) कर्जदार राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः एतदद्वारा कर्जदार और सर्वसाधारण को सूचन दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम क

ब्जा 13 अगस्त, 2024 को ले लिया है। (2) कर्जदारों / गारंटरों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता के इस सम्पत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार नहीं करें तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहा इंडियन ओवरसीज बैंक की 12-08-2024 तक बकाया राशि रू. 20,14,34,271(रू. बीस करोड़ चौदह लाख चौंतीस हजार दो सौ इकहत्तर मात्र) मांग सूचना की तिथि से आगे वसूली की तिथि तव संविदात्मक दरों एवं अंतरालों पर ब्याज, प्रभारों इत्यादि सहित तथा प्रतिभगतान, यदि कोई किया गया है, घटाकर, शेष राशि का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है। कब्जा लेने की तिथि तक कुल राशि **रू. 20,14,34,271 (रू. बीस करोड़ चौदह लाख चौंतीस हजार दो**

ग 13 की ਹπ∟धाग (०) के ग 2. उपरोक्त क्रेडिट सुविधाओं के लिए बैंक के पक्ष में प्रतिभृतियों का विवरण निम्नानुसार है :--

क. सं : 1 : प्रतिभृति का प्रकार (दिष्टबंधक / बंधक इत्यादि) : न्यायिक बंधक : प्रतिभृतियों का विवरण : प्लॉव (इसके स्वामी कशल मोहन अरोड़ा के माध्यम से बंधकदत्त) के नाम है, परिमाप 2150 वर्ग गज, सेल डीड़

चौहददी निम्नानुसार :- उत्तर : रोड ; दक्षिण : सरकारी भूमि एवं बडखल पलाईओवर ; पूरब : प्लॉ नंबर 44, सेक्टर—27ए, फरीदाबाद ; पश्चिम : प्लॉट नंबर 42, सेक्टर—27ए, फरीदाबाद

*उपरोक्त प्रतिभृति (प्लॉट नंबर 43 पर स्थित इंडिस्ट्रियल प्लॉट और बिल्डिंग सेक्टर-270 फरीदाबाद हरियाणा जो मैसर्स नैनी एक्सपोर्टर (इसके स्वामी कशल मोहन अरोड़ा के माध्यम बंधकदत्त) के नाम है, परिमाप 2150 वर्ग गज, सेल डीड नंबर 5268 दिनांकित 05-08-2004) हमारी सेक्टर-12, फरीदाबाद शाखा में ऋण खाता मैसर्स नैनी एक्सपोटर्स लिमिटेड में भी बंधक जो मानक है और आज की तिथि में अर्जक है, जिसमें **31-07-2024** तक **रू**. **4.93,57,877.67** (फ चार करोड़ तिरानवे लाख सत्तावन हातार आत सौ सतहत्तर तथा प्रैसे सहस्रत मान) आरे . लाग ब्याज के साथ बकाया है।

सीसी : मैसर्स नैनी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (इंडियन ओवरसीज बैंक, सेक्टर–12, फरीदाबाद शाखा अनुरक्षित ऋण खाता) प्लॉट नंबर 43, सेक्टर-27ए, फरीदाबाद, हरियाणा, तिथि : 16-08-2024 स्थान : चंडीगढ प्राधिकृत अधिकारी

> **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW** (Area of Jurisdiction - Part of Uttar Pradesh)

600/1. University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow- 226007

NOTICE UNDER RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH SECTION 29 OF THE RECOVERY OF

anga Nagar Branch, Ganga Nagar, Meerut (U.P.)- 250001 (Branch Code UCE

VERSUS

M/s KRISHNA ENTERPRISES & ORS Credit Debtors

1. M/s Krishna Enterprises (A Proprietorship Firm) Through it's Proprietress-

2. Smt Hema Rani W/o Satya Kumar Prajapati, Proprietress of M/s Krishna Enterprises, R/o C-133, Ganga Sagar Ganga Nagar, Meerut (U.P.)- 250001 2nd Address: R/o House No. 193, Panwari, Po Daurala, Meerut (U.P.)

3rd Address: House No. 1-457, I Block, Ganga Nagar, Mawana Road, Meerut (U.P.)

3. Mr. Satya Kumar Prajapati S/o Ratan Singh, R/o C-133, Ganga Nagar, Meerut (U.P.)- 250001. ..Certificate Debtor

This is to notify that a sum of Rs. 22,44,615.24 (Rupees Twenty Two Lacs Forty Four Thousand Six Hundred Fifteen and Paise Twenty Four Only)n (Rs 11,92,399.49/- in Cash Credit Loan Account) & (Rs. 10,52, 215, 75/- in Housing Loan Account) with interest @ 8.00% per annum with monthly rest from the date o filing of the Original Application i.e. 17.10.2020 till the loan is fully liquidated and Cost succeeds and is hereby allowed exparte against you the addressees as pe order dated 19.09.2022 passed by Hon'ble Tribunal in O.A. No. 828/2020, titled "UCO Bank Vs. M/s. Krishna Enterprises & Ors".

You are hereby directed to pay the aforesaid mentioned amount within 15 days o the Recovery of Debts Due to Bank and Financial Institution Act, 1993.

before 28.11.2024 You are hereby ordered to appear before the undersigned on 28.11,2024 at 11.00 A.M **Details of Cost:**

Application fee Rs. 25.010/-Advocate's Fees Clerkage **Publication Charges** Expenses suit filing & others Not claimed Given under my Hand and seal on this 9th day of August 2024.

Recovery Officer-**Debts Recovery Tribunal Lucknow**

बी.एन. अरोड़ा, पुत्र स्वर्गीय आसा नंद, निवासी सी-30. सी.सी. कॉलोनी, दिल्ली, श्री संजय आहजा, पत्र स्वर्गीय बी.एन. अरोड़ा और सपना आहूजा पत्नी संजय आहजा के नाम पर पंजीकृत था। 2013 में श्री बी.एन. अरोड़ा के निधन के बाद, संपत्ति अब

अगर किसी को इस पर कोई आपित है, तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर मेसर्स डीएलएफ होम डेवलपर्स लिमिटेड से संपर्क कर

सार्वजिनिक सूचना

मै सुशमा खन्ना पत्नी स्व० श्री नरेश खन्ना
निवासी मकान न० 3258ए, गली न० ४, सुनील
हाई विद्यालय के सामने एस जी एम नगर
फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली हूँ जो कि
मेरे पिता स्व० श्री देश राज अरोडा पुत्र श्री
मुकन्द लाल जी का देहान्त दिनांक 17-06-2019
को हो चुका है, मेरे पिता जी स्व० श्री देश राज
अरोडा पुत्र श्री मुकन्द लाल जो ने एक वसीयत
जिसका रिजस्ट्रशन न० 1072/3 दिनाक
04-10-2012 कार्यालय सब रिजस्ट्रार फरीदाबाद
मे सुशमा खन्ना पत्नी नरेश खन्ना के नाम
पिजकृत कराई है ना ही उपरोक्त वसीयत आज
तक निरस्त/कैन्सिल कराई गई है उपरोक्त
वसीयत के खिलाफ कोई दिवानी/फोजदारी
मुकदमा न्यायालय मे लिम्बत नही है।

सार्वजनिक सचना

मकान न0 3258ए, सुनील हाई स्कूल के सामने एस जी एम नगर फरीदाबाद हरियाणा की हूँ वाका मौजा बडखल तहसील बडखल व जिला फरीदाबाद मे अराजी खसरा मुठ नठ 120 कीला नठ 19 मे से रकबा 104 वर्गगज मे से 52 वर्गगज के हिस्सेदार मालिक काबिज मेरे पति स्व० श्री नरेश खन्ना पुत्र श्री जोधा राम खन्ना बरुवे बयनामा वसीका नठ 5863 दिनांक 27.08.1990 कार्यालय सब रजिठ फरीदाबाद की रुह से मालिक काबिज थे मेरे पति स्व० नरेश खन्मा पुत्र श्री जोधा राम खन्मा का देहान्त दिनांक प्राप्त श्री जोधा राम खन्मा का देहान्त दिनांक नील हाई स्कल के सामने एस जी एम न भातिक की|बज थे भर पार पर १० रूप रूप पुत्र श्री जोषा राम खन्ना का देहान्त दिनांक 21.07.2020 को हो गया है व बकाया बारकबा 52 वर्गगज की मै प्रार्थी रचयं बयनामा की रूह से स्वयं मालिक काबिज हूँ मेरे पति स्वल श्री नरेश खन्ना की मृत्यु उपरान्त मै उनकी विधवा सुशमा खन्ना व हमारा पुत्र विपिन खन्ना है इसके अलावा कोई अन्य वारसान ना है

PUBLIC NOTICE

Shankar Dutt has applied to the company fo issue duplicate certificates.

> the said share certificate should lodge such claim with the company within 15 days of the publication of this notice.

पंजी. कार्यातयः धामपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर—246761, यु.पी कॉर्पो कार्यात्नयः 6वीं मंजिल, मैक्स हाउस, ओखला फेज—॥, नई दिल्ली—110020 CIN- L15249UP1933PLC000511, फोन: 011- 41259400 ईमेल आईडी: investordesk@dhampursugar.com वेबसाइटः www.dhampursugar.com

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों की 89वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") गुरूवार, 12 सितम्बर, 2024 को दोपहर 03.00 बजे **(आईएसटी)** विडियो कॉन्फ्रेंस (''वीसी'') / अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों (''ओएवीएम'') के द्वारा आयोजित की जाएगी। एजीएम का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अर्थात् धामपुर, जिला बिजनौर—246761 (यू.पी.) माना जाएगा।

एजीएम कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के सभी लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमां, मारतीय प्रतिमृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बार्घ्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं, विनियम, 2015, यथा संशोधित (''सूचीयन विनियम'') के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 और नवीनतम 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और भारतीय प्रतिमृति एव विनिमय बोर्ड (सेबी) परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी–2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 और परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी—पीओडी—2 / पी /

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों और परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट सहित वार्षिक रिपोर्ट उन समी सदस्यों को ई—मेल द्वारा मेज दी गई है जिनके ई—मेल आईडी कंपनी या मैसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड (''आरटीए'') और डिपॉजिटरी प्रतिमागी (''डीपी'') के पास पंजीकृत हैं। सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक डिस्पैच **16 अगस्त, 2024** को पूरा कर लिया गया है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.dhampursugar.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) तथा एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है एजीएम की सूबना में निष्पादित किये जाने मदों से संबंधित दस्तावेज एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम https://www.evoting.nsdl.com पर लॉगड़न करने पर उपलब्ध होंगे। एजीएम की सूबना था वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतिया भेजने की आवश्यकत

मसीए / सेबी परिपत्रों के माध्यम से हटा दी गई हैं। रिमोट ई–वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के लिए निर्देश:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 तथा सेबी (सूबीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 तथा सचिवीय मानक—2 के अनुसरण में कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में पारित किये जाने वाले प्रस्तावित संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट देने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। **गुरूवार, 5 सितम्बर, 2024** (कट—ऑफ तिथि) को मौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइ प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण एनएसडीएल के डलेक्टॉनिक वोटिंग सिस्टर ्रिमोट ई-बोटिंग) https://www.evoling.nsdl.com के माध्यम से अपना वोट दे पाएंगे। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट—ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार किये गये लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वही रिमोट ई—वोटिंग सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा। सभी सदस्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि 89वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष व्यवसाय को निष्पादन केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्मय र
- सदस्यों का वोटिंग अधिकार **गुरूवार, 5 सितम्बर, 2024** (कट—ऑफ तिथि) को कंपनी की प्रदत्त इक्किटी शेयर पूंजी में उनके शेयर के आनुपातिक होगा।
- रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 9 सितम्बर, 2024 को प्रात: 09:00 बजे प्रारंभ होगी और बधवार, 1 **सितम्बर, 2024** को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। **बुधवार, 11 सितम्बर, 2024** को सायं 5:00
- को उक्त तिथि और समय के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यगण जो कट–ऑफ तिथि से पूर्व एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद
- एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, वे एजीएम के दौरान ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने के लिए योग्य होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें बैठक में वोट देने की अनुमति नहीं होगी।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम की सूचना के साथ ही एनएसडीएल द्वारा सदस्यों के भेजे गये ई-मेल पर भी उपलब्ध है। किसी भी पूछताछ / शिकायत के लिए आप एनएसडीएल की ई—वोटिंग वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com/ पर डाउनलोड सैक्शन में सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं। सदस्यगण जिन्हें तकनीक के उपयोग पर एजीएम से पूर्व या एजीएम के दौरान कोई सहायता चाहिए वे निम्नानुसार सम्पर्क कर सकते हैं:
 - सकते हैं और सीडीएसएल के साथ होल्डिंग के मामले में टोल फ्री नंo. 1800-21-0991 पर कॉल कर करें: या
- ख) सुश्री सरिता मोते, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल से निर्दिष्ट ईमेल आईडी evoting@nsdl.com
- एजीएम की सचना कंपनी की वेबसाइट यानि www.dhampursugar.com, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानि बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com)

रजीएम से पूर्व एवं एजीएम के दौरान ई—वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए साकेत शर्मा (एफसीएसः 4229), पार्टनर, मैसर्स जीएसके एंड एसोसिएट्स, कंपनी

सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

. उन सदस्यों जिनके पास भौतिक रूप में शेयर रखे हुए हैं और जिन्होंने कंपनी के पास अपने ईमेल पते अपडेट नहीं कराए हैं, उनसे कंपनी के आरटीए अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, को rta@alankit.com पर लिखे या कंपनी को investordesk@dhampursugar.com पर, नाम, फोलियो नंबर, सदस्य के पते का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति के साथ फॉम आईएसआर 1 (कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध). पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और सदस्य के पते के प्रमाण के रूप में किसी भी दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोट आदि) की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रतिलिपि सहित लिखित रूप में भेजकर अपने ईमेल पते अपडेट कराने का अनुरोध किया जाता है। कृपया अपना बैंक विवरण वास्तविक कैंसल किये गये चैक के साथ आरटीए (अर्थात अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, अलंकित हाउस, 4ई/2, झंडेवालन एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 में यदि पहले पंजीकृत नहीं कराया है तो, फोलियो नं, वर्णित करते

डिमटेरियलाइज्ड माध्यम से शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट कराएं। कृपया भविष्य में बैंक खातों में सीघे लाम के लिए डीपी के पास अपना बैंक विवरण अपडेट कराएं, यदि पहले से पंजीकृत नहीं है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे 4 सितम्बर, 2024 तक अपने ईमेल पते को अपडेट कराएँ। ईमेल पते के सफल पंजीकरण के बाद, कट—ऑफ तारीख यानी 5 सितम्बर, 2024 को कंपनी के सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग निर्देश के साथ एजीएम सूचना की सॉट कॉपी प्राप्त होगी। किसी भी पूछताछ के लिए, सदस्यों से आरटीए को rta@alankit.com पर या कंपनी को 'estordesk@dhampursugar.com पर लिखने का अनुरोध किया जाता है। एमसीए और सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए यह सूचना

एजीएम में भाग लेने की प्रक्रियाः

स्थान : नई दिल्ली

सदस्यगण एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम में एक्सेस के अंतर्गत एजीएम की सूचना में वर्णित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद आपको कंपनी नाम के अंतर्गत मीनू "ज्वाइन जनरल मीटिंग" के अंतर्गत "वीसी/ओएवीएम' लिंक दिखाई देगा। मीनू "ज्वाइन जनरल मीटिंग'' के अंतर्गत ''वीसी/ओएवीएम' लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक / सदस्य लॉगइन पर उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवीईएन प्रदर्शित किया जाएगा कुपया नीट करें कि ऐसे सदस्यगण जिनके पास ई-नोटिंग के लिए यूजर आईडी एवं पासवर्ड नहीं है या अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड भूल गये हैं, वे अंतिम वक्त में जल्दबाजी से बचने के लिए पहले ही रिमोट ई—वोटिंग दिशानिर्देशों में दी गई प्रक्रिया का पालन करके इसे दोबारा प्राप्त क

बुक क्लोजर

धारा 91 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में हम यह सूचित करते हैं कि एजीएम के प्रयोजन हेतु कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शुक्रवार, 6 सितम्बर, 2024

बोर्ड के आदेशानुसार कृते धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड हस्ता./ अपर्णा गोयल कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

पंजीकृत कार्यालय : आईएफसीआई टॉवर, 61 नेहरू प्लेस नर्ड दिल्ली — 110 019

सीआईएन : L74899DL1993GOI053677

eauctions.co.in पर ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के जरिए संचालित की जाएगी। बिक्री के नियम एवं शर्तें सम्मिलित ई-नीलामी प्रक्रिया की जानकारी भी https://www.eauctions.co.in पर उपलब्ध रहेगी।

इनाराना रुपता (त्रकटार इकातत प्रा.स.) का रित चन्य व्यक्तिः आ दीवात अजानत, इनरा जाइडा admin@eauctions.co.in, मोबाइल नं : +91 7874138237, परिसामक की ओर से सम्मर्क व्यक्तिः श्री शिवम जयसवाल, ईमेल आईडीः feindialiquidation@gmail.com

एफई (इण्डिया) लिमिटेड (परिसमापन में) के मामले मे आईबीबीआई पंजीकरण सं. IBBI/IPA-002/IP-N00104/2017-18/10232) एएफए की वैधताः 14.12.2024 तक पंजीकृत पताः सी-10, लोअर ग्राउंड फ्लोर, लाजपत नगर-III, दिल्ली-110024

निविदा सूचना आमंत्रित Aug 17, 2024

शुद्धिपत्र / निविदा तिथि विस्तार					
निविदा पूछताछ सं . कार्य का विवरण	पूर्व प्रकाशित दिनांक	संशोधित निविदा तिथि/बोली जमा कराने की तिथि/बोली खोलने की तिथि			
PDDL/ENGG/ENQ/200001682/24-25 Purchase of Power Server	21.06.2024	20.08.2024 at 1600 Hrs/ 20.08.2024 at 1630 Hrs			
TPDDL/ENGG/ENQ/200001697/24-25 Supply of Dry Type Transformer & Packaged Substation	12.07.2024	30.08.2024 at 1630 Hrs/ 30.08.2024 at 1700 Hrs			

Contracts - 011-66112222

ना सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम ८(१)]

(ह) मैसर्स नैनी एक्सपोर्टर (इसके स्वामी – श्री क़ुशल मोहन अरोड़ा के माध्यम से), प्लॉट नंबर 43, सेक्टर–27ए, फरीदाबाद, हरियाणा से मांग सूचना में वर्णितानुसार 16–04–2024 तक बकाया राशि **रू. 19,17,59,242 / — (रू. उन्नीस करोड़ सत्रह लाख उनसठ हजार दो सौ बयालीस मात्र)** के साथ

धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति, क

सौ इकहत्तर मात्र) आगे वसूली की तिथि तक संविदात्मक दरों एवं अंतरालों पर ब्याज (3) कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियन

iav 5268 दिनांकित 05—08—2004.*

FORM NO. 1

DRC No. 451/2023/RO-I

DEBTS AND BANKRUPTCY ACT 1993. UCO Bank

Smt. Hema Rani Wo Satya Kumar Prajapati. Registered Address: Village- Salarpur Khurd, Mawana Road Near Shanti Niketan School, Meerut (U.P.)- 250001

receipt of this notice, failing which the recovery shall be made in accordance with You are hereby ordered to declare on Affidavit the particulars of assets on o

Not Claimed Not Claimed Not Claimed

नम्नलिखित से जुड़ी हुई है:

1. श्री संजय आहजा . श्रीमती सपना आहूजा

सकता है।

Notice is hereby given that Share Certif Nos. 26310 & 61117 for 200 Equity Share of Rs.10/- (Rupees ten only) each bearing Distinctive Nos. from 2629101 to 2629200 and 16203899 to 16203998 of M/s Eiche Motors Ltd having its registered office at 3rd Floor - Select Citywalk, A-3 District Centre Saket, New Delhi, Delhi, 110017 registered in the name of Late Mr. Kizhusseri S Kutty & Mrs. K S Kutty have been lost. Mr. Gautam

Any person who has any claim in respect o



धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड

89वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना ई—वोटिंग की जानकारी और बुक क्लोजर

सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 7 अक्टबर, 2023 के अनपालन में आयोजित की जाएगी।

- वोटिंग द्वारा किया जाएगा।
- बजे के बाद रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएँगा। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद उसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल अक्षम कर दिया जाएगा और सदस्यों
- शेयर अधिग्रहित करते हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपना वोट देने के लिए यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए एजीएम की सूचना का अवलोकन करें।
- evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या एनएसडीएल के साथ होल्डिंग के मामले में टोल फ्री नं0. 022-48867000 पर कॉल कर

ईमेल पते पंजीकत / अपडेट कराने का तरीकाः

हुए पत्र के साथ) पर भी भेजें।

एतद्द्वारा **सूचित** किया जाता है कि सूचीयन विनियम के विनियम 42 और कंपनी अधिनियम की से गुरूवार, 12 सितम्बर, 2024 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

गीतिका वार्ष्णीर

Sd/-